



**प्रेस नोट थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज दि 04.11.2021**

\*\*\*\*\*

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कन्नौज श्री प्रशान्त वर्मा द्वारा चलाये जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद कन्नौज डॉ. श्री अरविन्द कुमार के कुशल निर्देशन में व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय छिब्रामऊ जनपद कन्नौज श्रीमान शिवकुमार थापा के निकट पर्यवेक्षण में मुझ थानाध्यक्ष किशन पाल सिंह द्वारा मय हमराह पुलिस बल के थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-120/2021 धारा- 147/148/149/302/307/504/120बी भा0द0वि0 में नामित/वांछित **5000-5000 रुपये के इनामिया** अभि0गण 01. गगनदीप उर्फ योगेश पुत्र विनोद 02. आशीष पुत्र विनोद कुमार निवासीगण ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज को दिनांक-04.11.2021 को प्रातः काल मय हमराही पुलिस बल के साथ गिरफ्तार किया गया जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल 01 अदद रायफल 315 बोर देशी अवैध मय 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर बरामद किया गया जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-123/2021 धारा- 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम गगनदीप उर्फ योगेश पुत्र विनोद व मु0अ0सं0-124/2021 धारा- 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम आशीष पुत्र विनोद निवासीगण ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज पंजीकृत कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण –**

दिनांक-29/30.10.2021 की रात्रि में थाना विशुनगढ़ क्षेत्र के ग्राम नगला भजा में विवादित खेत जोतने की बात को लेकर फायरिंग की घटना घटित हुई थी घटना में गोली लगने से वादी मुकदमा के चाचा श्री शिवराज सिंह पुत्र सोबरन सिंह की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी व पूजा यादव पत्नी ऋषि कुमार गोली लगने से घायल हो गई थी, जिसका इलाज चल रहा है। मृतक के भतीजे ऋषि कुमार पुत्र ब्रजराज सिंह निवासी ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-120/2021 धारा-147/148/149/302/307/504/120बी भा0द0वि0 बनाम- विनोद पुत्र नृपति सिंह आदि 05 नफर के पंजीकृत किया गया था। जिसमें दिनांक-31.10.2021 को मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभि0 दीपक उर्फ दीपू पुत्र दलवीर सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज को मय घटना में प्रयुक्त सफेद बोलोरो UP74M 8312 सहित गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला कारागार में निरुद्ध कराया गया तथा दिनांक 02.11.2021 को मुकदमा उपरोक्त में नामित मुख्य अभि0 विनोद पुत्र नृपति सिंह निवासी ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज को गिरफ्तार कर अभि0 की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकल्ल 01 अदद देशी बन्दूक सिंगल बोर नाजायज 12 बोर मय 01 अदद कारतूस जिन्दा व 02 अदद खोखा कारतूस के साथ बरामद किया गया जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-121/2021 धारा- 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभि0 उपरोक्त को माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया। आज दिनांक- 04.11.2021 को प्रातः काल उपरोक्त मुकदमें में नामित/वांछित तथा मुकदमें में फरार चल रहे पुरस्कार घोषित अभि0गण 01. गगनदीप उर्फ योगेश पुत्र विनोद 02. आशीष पुत्र विनोद कुमार निवासीगण ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज जिनके विरुद्ध श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा **5000-5000 रुपये** का पुरस्कार घोषित किया गया है, को मुझ थानाध्यक्ष द्वारा मय हमराह पुलिस बल के सहयोग से गिरफ्तार किया गया। अभि0गण उपरोक्त की निशानदेही पर हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 अदद रायफल 315 बोर देशी अवैध मय 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर के बरामद किया गया जिस सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु0अ0सं0-123/2021 धारा- 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम गगनदीप उर्फ योगेश पुत्र विनोद व मु0अ0सं0-124/2021 धारा- 3/25/27 आर्म्स एक्ट बनाम आशीष पुत्र विनोद निवासीगण ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज के विरुद्ध पंजीकृत कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का नाम व पता –**

**01-** गगनदीप उर्फ योगेश पुत्र विनोद निवासी ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज

**02-** आशीष पुत्र विनोद निवासी ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज

**बरामदा माल का विवरण–**

**01.** हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 अदद रायफल 315 बोर देशी अवैध मय 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर (गगनदीप के कब्जे से)

**02.** हत्या की घटना में प्रयुक्त 01 अदद तमंचा देशी 12 बोर मय 02 अदद खोखा कारतूस 12 बोर (आशीष के कब्जे से)

**आपराधिक इतिहास-आशीष पुत्र विनोद उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज**

01. मु0अ0सं0-120/2021 धारा-147/148/149/302/307/504/120बी भा0द0वि0
02. मु0अ0सं0-18/20 धारा -110G द0प्र0सं0
03. मु0अ0सं0-43/2020 धारा-504/506 भा0द0वि0
04. मु0अ0सं0 124/21 धारा -3/25/27 आर्म्स एक्ट

आपराधिक इतिहास-गगनदीप उर्फ योगेश पुत्र विनोद उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम नगला भजा थाना विशुनगढ़ जनपद कन्नौज

01. मु0अ0सं0-120/2021 धारा-147/148/149/302/307/504/120बी भा0द0वि0

02. मु0अ0सं0 123/21 धारा -3/25/27 आर्म्स एक्ट



गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम के सदस्य-

1. थानाध्यक्ष श्री किशनपाल सिंह
2. वरि0उ0नि0 श्री राधेश्याम
3. उ0नि0 श्री चन्दन सरोज
4. का0 1040 गजेन्द्र सिंह
5. का0 985 जितेन्द्र सिंह
6. का0 426 निर्भय दलवाल
7. का0 609 रामलखन
8. म0का0 279 चंचल तिवारी

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी व गिरफ्तार करने वाली टीम को घोषित इनाम 5000-5000 रुपये की धनराशि से पुरूस्कृत किया गया ।